

All The Right Answers Are Marked By Circle

1. Deficiency of vitamin C causes –

(A) Rickets (B) Beriberi (C) Scurvy (D) Night blindness

विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है :-

(A) रिकेट्स (B) बेरीबेरी (C) स्कर्वी (D) रत्तेंधी

2. Jaundice is a disease of –

(A) Kidney (B) Pancreas (C) Liver (D) Duodenum

पीलिया (Jaundice) बीमारी शरीर के किस हिस्से को खराबी से होती है ?

(A) गुरदा (किडनी) (B) अग्न्याशय (C) प्रकृत (लीवर) (D) द्युधनम्

3. Carbon dioxide in atmospheric air amounts to about –

वायुमंडल में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है :-

(A) 0.03% (B) 0.003% (C) 0.3% (D) 3%

4. Largest gland in human body is –

(A) Liver (B) Pancreas (C) Pituitary (D) Thyroid

मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रन्थि (ग्लैंड) है :-

(A) प्रकृत (लीवर) (B) अग्न्याशय (C) पीयुष ग्रन्थि (D) थायोराइड

5. Which of the following blood groups is universal recipient?

कौन सा रक्त वर्ग सर्वत्र प्राप्तकर्ता (Universal Recipient) है ?

(A) A (B) AB (C) B (D) O

6. The distance travelled by a freely falling body is proportional to –

(A) The mass of the body (B) The square of acceleration due to gravity

(C) The square of time of fall (D) The time of fall.

स्वतन्त्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तथ की गई दूरी किसके अनुपात में है ?

(A) वस्तु का भार (B) गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग

(C) गिरने के समय का वर्ग (D) गिरने का समय - d 15 975 w o

7. A man walks 8 km towards East and then 6 km towards North. His magnitude of displacement is –

(A) 10 km (B) 14 km (C) 2 km (D) Zero

एक आदमी 8 किमी पूर्व की ओर तथा फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है। उसके विस्थापन का परिमाण है :-

(A) 10 किमी. (B) 14 किमी. (C) 2 किमी. (D) शून्य

8. If two bodies have their masses in the ratio 1 : 4 and their volumes are equal, then their densities will have the ratio –

दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1 : 4 है और उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात होगा :-

(A) 1 : 4

(B) 4 : 1

(C) 2 : 1

(D) 1 : 2

d is answer

9. The unit of power is –

(A) Watt per second (B) Joule

(C) Kilo Joule

(D) Watt

शक्ति (Power) का मात्रक है :-

(A) वाट प्रति सेकंड (B) जूल

(C) किलो जूल

(D) वाट

10. When water is heated from 0°C, its volume –

(A) Increases

(B) Decreases till 4°C

(C) Remains the same

(D) First increases then decreases

जब पानी को 0°C से गर्म किया जाय तो इसका आयतन :-

(A) बढ़ेगा

(B) 4°C तक कम होगा

(C) बही रहेगा

(D) पहले बढ़ेगा तब घटेगा

11. Sound waves cannot pass through –

(A) A solid

(B) A liquid

(C) A gas

(D) Vacuum

ध्वनी तरंगे नहीं गुजर सकती :-

(A) ठोस माध्यम से

(B) तरल माध्यम से

(C) गैस माध्यम से

(D) निर्वात से

12. If a wave of wave length λ is travelling in a medium with velocity v , then its frequency is –

λ तरंग दैर्घ्य की एक तरंग v गति से चल रही है, तो इसकी आवृत्ति होगी :-

(A) $\frac{v}{\lambda}$

(B) $v\lambda$

(C) $\frac{\lambda}{v}$

(D) $\frac{1}{v\lambda}$

13. The focal length of a plane mirror is –

(A) Positive

(B) Negative

(C) Zero

(D) Infinity

समतल दर्पण की नाभीय दूरी (focal length) है :-

(A) धनात्मक

(B)ऋणात्मक

(C) शून्य

(D) अनन्त

14. The mirror used in search lights is –

(A) Concave

(B) Convex

(C) Plane

(D) None of these

टॉर्च में प्रयोग होने वाला दर्पण है :-

(A) अवतल

(B) उत्तल

(C) समतल

(D) इनमें से कोई नहीं

15. In general, when the temperature of a conductor is increased, its resistance –
 (A) Increases (B) Decreases (C) Remains same (D) Decreases rapidly
 सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संचाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध :-
 (A) बढ़ता है (B) घटता है (C) बराबर रहता है (D) तेजी से घट जाता है
16. If two resistances are connected in parallel, their combined resistance will
 (A) Increase (B) Decrease
 (C) Will depend on voltage applied (D) None of above
 यदि दो प्रतिरोध समानान्तर जुड़े हुए हैं तब इनका संयुक्त प्रतिरोध :-
 (A) अधिक होगा (B) कम होगा
 (C) बोल्टेज पर निर्भर करेगा (D) इनमें से कोई नहीं
17. A motor converts –
 (A) Mechanical energy into electrical energy (B) Mechanical energy into sound energy
 (C) Electrical energy into Mechanical energy (D) None of these
 मोटर रूपान्तरित करता है :-
 (A) यान्त्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में (B) यान्त्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में
 (C) विद्युत ऊर्जा को यान्त्रिक ऊर्जा में (D) इनमें से कोई नहीं
18. Electromagnets are used in –
 (A) Electric Bell (B) Traditional Telephones
 (C) Dynamos (D) All the above
 विद्युत-चुंबक किसमें उपयोग होता है ?
 (A) विद्युत घंटी (B) परंपरागत टेलीफोन
 (C) डायनमो (D) इन सभी में
19. The earth rotates on its axis from –
 (A) West to East (B) East to West (C) North to South (D) South to North
 पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है :-
 (A) पश्चिम से पूरब (B) पूरब से पश्चिम (C) उत्तर से दक्षिण (D) दक्षिण से उत्तर
20. The core of the Earth is made up of mainly –
 (A) Lead (B) Mercury (C) Iron (D) Carbon
 पृथ्वी का केन्द्रीय भाग (Core) मुख्य रूप से बना होता है :-
 (A) सीसे का (B) पारे का (C) सोहे का (D) कार्बन का

21. Which of the following is not a chemical reaction –

 - (A) Rusting of iron
 - (B) Converting water into steam
 - (C) Making curd from milk
 - (D) Burning of coal

निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ?

 - (A) लोहे में जंग लगाना
 - (B) पानी का भाष में बदलना
 - (C) दूध से दही का बनाना
 - (D) कोयले का जलना

22. For an acidic solution, the pH value is –

 - (A) < 7
 - (B) > 7
 - (C) $= 7$
 - (D) None of these

एक अम्लीय घोल का पी.एच. मान होता है :-

 - (A) < 7
 - (b) > 7
 - (C) $= 7$
 - (D) इन सभी में कोई नहीं

23. Isotopes of an element differ in –

 - (A) Number of electrons
 - (B) Number of protons
 - (C) Number of neutrons
 - (D) Chemical reactivity

एक तत्व के समस्थानिक (आइसोटोप्स) किसमें भिन्न होते हैं :-

 - (A) इलेक्ट्रॉन की संख्या में
 - (B) प्रोटॉन की संख्या में
 - (C) न्यूट्रोन की संख्या में
 - (D) रासायनिक अभिक्रिया में

24. Which of the following is a re-chargeable battery –

 - (A) Lead-Acid battery
 - (B) Nickel-Cadmium battery
 - (C) Lithium-Ion battery
 - (D) All of above

निम्न में से कौन सी बार-बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है ?

 - (A) लैड-एसिड बैटरी
 - (B) निकेल-कैडमियम बैटरी
 - (C) लीथियम-ऑयन बैटरी
 - (D) इनमें से सभी

25. An amplifier performs the following function on the incoming signal –

 - (A) Enhances its frequency
 - (B) Enhances its amplitude
 - (C) Enhances its wavelength
 - (D) Enhances its velocity

एक प्रवर्धक यन्त्र (Amplifier), आने वाले संकेत पर कौन सा कार्य करता है ?

 - (A) आवृत्ति को बढ़ाता है
 - (B) आयाम को बढ़ाता है
 - (C) तरंग दैर्घ्य को बढ़ाता है
 - (D) गति को बढ़ाता है

26. Which of the following is not a prime number?

निम्नलिखित में से कौन रुद्र (अभाज्य) संख्या नहीं है ?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

27. $1.\overline{3}$ can also be expressed as -

$1.\overline{3}$ को इस प्रकार भी लिख सकते हैं :-

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{2}{5}$

28. The decimal equivalent of $\frac{5}{16}$ is -

$\frac{5}{16}$ किस दशमलव के बराबर है -

- (A) 0.3 (B) 0.31 (C) 0.312 (D) 0.3125

29. Value of $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$ is -

$\sqrt{2} \times \sqrt{2}$ का मान है -

- (A) 2 (B) 4 (C) 1.41 (D) 3

30. $(a + b)(a - b)$ can be simplified as -

$(a + b)(a - b)$ को सरल किया जा सकता है -

- (A) $a^2 - b^2$ (B) $a^2 + b^2$ (C) $a^2 + b^2 + 2ab$ (D) $a^2 + b^2 - 2ab$

31. If $x = 2$ and $y = 3$, then $x^x + y^y$ is equal to -

यदि $x = 2$ और $y = 3$, तब $x^x + y^y$ किसके बराबर है -

- (A) 30 (B) 37 (C) 33 (D) 31

32. The H.C.F. of 8 and 12 is -

8 और 12 का महत्तम समगुणक (H.C.F.) है -

- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

33. If $A : B = 3 : 4$ and $B : C = 5 : 6$, then $A : C$ is -

यदि $A : B = 3 : 4$ और $B : C = 5 : 6$, तब $A : C$ है -

- (A) 5 : 9 (B) 3 : 4 (C) 1 : 2 (D) 5 : 8

34. 12 men complete a work in 20 days. If only 8 men had been employed for the same work, how much time would it have taken?

- (A) 24 days (B) 25 days (C) 30 days (D) 35 days

12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 8 आदमी करते हैं तो कितने दिन लगेंगे?

- (A) 24 दिन (B) 25 दिन (C) 30 दिन (D) 35 दिन

35. A boy takes 20 minutes to reach the school at the speed of 12 km/hour. If he wants to reach the school in 15 minutes, his speed should be -

(A) 15 km/hr. (B) 16 km/hr. (C) 18 km/hr. (D) 19 km/hr.

एक लड़का 12 किमी/घंटा की रफ्तार से 20 मिनट में स्कूल पहुँचता है। यदि वह 15 मिनट में स्कूल पहुँचना चाहता है तो उसकी रफ्तार होनी चाहिए ?

(A) 15 किमी/घंटा (B) 16 किमी/घंटा (C) 18 किमी/घंटा (D) 19 किमी/घंटा

36. 25% of 3600 is -

3600 का 25% होगा -

(A) 1600 (B) 600 (C) 900 (D) 1000

37. Simple interest for 4 years at the rate of 9% per annum on an amount of Rs. 20,000/- is -

9% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 20,000/- का साधारण ब्याज होगा -

(A) Rs. 1800/- (B) Rs. 5400/- (C) Rs. 6400/- (D) Rs. 7200/-

38. The sum of the angles of a quadrilateral is -

चतुर्भुज के कोणों का योग है -

(A) 90° (B) 180° (C) 360° (D) 270°

39. If two cubes have volumes in the ratio 1 : 27 then the ratio of the areas of their respective faces will be -

यदि दो घनों (क्यूबों) के आयतन का अनुपात 1 : 27 है तो उनके मुख्यों (पाश्वों) के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा?

(A) 1 : 3 (B) 1 : 9 (C) 1 : 6 (D) 1 : 18

40. A hall has dimensions $24 \text{ m} \times 8 \text{ m} \times 6 \text{ m}$. Find the length of the longest pole that can be accommodated in the hall.

एक हॉल का आकार $24 \text{ मी.} \times 8 \text{ मी.} \times 6 \text{ मी.}$ है। इस हॉल में रखने जा सकने वाले अधिकतम लंबे डण्डे की लम्बाई ज्ञात करें?

(A) 26 m (B) 28 m (C) 30 m (D) 36 m

41. The mean of the first 10 natural numbers is -

प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान (औसत) होगा -

(A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{11}{2}$ (C) $\frac{13}{2}$ (D) 5

42. The mean of ten numbers is 7. If each number is increased by 5, the new mean will be -

दस संख्याओं का मध्यमान (औसत) 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाये तो नया मध्यमान होगा?

(A) 7 (B) 17 (C) 57 (D) 12

43. The number of square tiles of side 20 cm required to cover a square courtyard of area 64 m^2 is -

64 मी.² के बर्गाकार आंगन में 20 सेमी. लम्बाई वाली कितनी बर्गाकार टाइलें लगेंगी?

(A) 1598 (B) 1600 (C) 1602 (D) 3200

दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए उपयुक्त पुस्तकें

आज के इस कड़े प्रतियोगी युग में केवल एक पुस्तक से किसी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिये श्री कृष्ण पञ्चशर्जन ने निम्न पुस्तकों प्रकाशित की है। एक सही पुस्तक का चुनाव आपके जीवन में एक मील का पथर साखित हो सकती है। अतः सदैव पुस्तक सावधानी के साथ चुनो। इस परीक्षा में आपकी सफलता को पूर्ण सुरक्षित करने के लिए हमने निम्न पुस्तके प्रकाशित की हैं।

1. दिल्ली पुलिस सिपाही गार्ड	₹ 140.00
2. एस. के. अंकगणित (वस्तुनिष्ठ) पूर्ण हल सहित	₹ 110.00
3. एस. के. सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ) पूर्ण हल सहित (1989 से अब तक के प्रश्नों का समावेश वर्ष सहित)	₹ 75.00
4. सामान्य ज्ञान वृहत (पृष्ठ 400)	₹ 90.00
5. कंरट अफेयर (वस्तुनिष्ठ)	₹ 20.00
6. एस. के. तर्क शक्ति परीक्षण (सभी प्रश्नों की व्याख्या)	₹ 200.00
7. दिल्ली पुलिस अभ्यास पेपर सैट (20 पेपर हल सहित)	₹ 80.00
8. न्यू करंट इवेन्ट	₹ 16.00

एस. के. तर्क शक्ति परीक्षण

- सभी समस्याएं पूर्ण व्याख्या सहित हल की गई हैं।
- पुस्तक श्री कृष्ण कौविंश सेन्टर के अध्यापकों की पूरी टीम के सहयोग से लिखी गई है।
- सभी प्रश्न दिल्ली पुलिस, CPO-SI, SSC, रेलवे व RPSC के द्वारा अन्तिम विभिन्न परीक्षाओं से लिये गये हैं।
- अधिकांश प्रश्नों के साथ उनके पूछे गये वर्ष/आयोग का नाम दिया गया है।
- प्रत्येक Chapter में प्रश्नों की सभी Types ली गई हैं।
- पूरी टीम के सहयोग से कई समस्याओं के नए Short-cut खोजे गये हैं जो पहली बार इस पुस्तक में प्रकाशित किये जा रहे हैं। जैसे : वासा, न्याय, घटी, वलेण्डर इत्यादि।
- हम जानते हैं कि हमारा पाठक वेहाल केंद्र का विद्यार्थी है अतः मूल्य अन्य प्रकाशकों के मुकाबले काफी कम रखा गया है।
- विद्यार्थियों से समयाभाव में हो सकने वाली गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया है।

राम सिंह यादव

मूल्य ₹ 200.00

44. If the area of a rhombus of side x is denoted by A , then which of the following is true?
 यदि x भुजा वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल A से दर्शाया गया है, तो निम्न में से क्या सत्य है?
 (A) $A = x^2$ (B) $A > x^2$ (C) $A \leq x^2$ (D) None of these
 यदि x भुजा वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल A से दर्शाया गया है, तो निम्न में से क्या सत्य है?
 (A) $A = x^2$ (B) $A > x^2$ (C) $A \leq x^2$ (D) इनमें से कोई नहीं
45. If the HCF of two numbers is 1, then their LCM is equal to -
 यदि 2 संख्याओं का महत्तम समगुणक (HCF) 1 है, तो उनका लघुतम समापवर्त्य (LCM) होगा -
 (A) Their product (B) Their sum (C) Zero (D) None of these
 यदि 2 संख्याओं का महत्तम समगुणक (HCF) 1 है, तो उनका लघुतम समापवर्त्य (LCM) होगा -
 (A) उनका गुणा (B) उनका जोड़ (C) शून्य (D) इनमें से कोई नहीं
46. The diameter is -
 (A) the smallest chord of a circle (B) The largest chord of a circle
 (C) a tangent of a circle (D) perpendicular to every chord of a circle
 व्यास है -
 (A) वृत्त की न्यूनतम ज्या
 (C) वृत्त की स्पर्शज्या (B) वृत्त की अधिकतम ज्या
 (D) वृत्त की प्रत्येक ज्या के लम्बवत्
47. If the sides of a triangle are 3 cm, 4 cm and 5 cm, then its area is -
 यदि एक त्रिकोण की भुजाएँ 3 सेमी., 4 सेमी. और 5 सेमी. हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा -
 (A) 6 cm^2 (B) 7.5 cm^2 (C) $5\sqrt{2} \text{ cm}^2$ (D) 3 cm^2
 (A) 6 सेमी.² (B) 7.5 सेमी.² (C) $5\sqrt{2}$ सेमी.² (D) 3 सेमी.²
48. 1% of 1 is equal to -
 1 का 1% किसके बराबर होगा ?
 (A) 0.1 (B) 10 (C) 1 (D) 0.01
49. If a number is reduced by 10% and then again increased by 10%, the resultant number will be -
 (A) Equal to the original number (B) Bigger than the original number
 (C) Smaller than the original number (D) Insufficient data to comment
 यदि एक संख्या 10 प्रतिशत कम की जाती है और फिर 10 प्रतिशत बढ़ाई जाती है तो परिणामी संख्या होगी -
 (A) मूल संख्या के बराबर (B) मूल संख्या से बड़ी
 (C) मूल संख्या से छोटी (D) समालोचना के लिए पूर्ण तथ्य नहीं
50. The perimeter of a circular field with 7m radius will be $\left(\text{take } \pi = \frac{22}{7} \right)$ -
 7 मीटर अर्धव्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि होगी $\left(\text{take } \pi = \frac{22}{7} \right)$ -
 (A) 22 m^2 (B) 44 m^2 (C) 33 m^2 (D) 2 m^2